



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 1979/पौष 6, 1901

No. 246]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 1979/PAUSA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1979

सं० 22(527)/79-पी० आर०/एन० पी०—प्राक्कलन समिति की संस्तुति के अनुसरण में, भारत सरकार ने 29 जुलाई, 1964 को समाचार-पत्रों तथा इसी प्रकार के दूसरे मामलों के लिए अखबारी कागज के आयात और आबटन तथा मुद्रण मशीनरी की नीति के प्रश्न पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति बनाई थी। अखबारी कागज सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से अब पुनर्गठन किया गया है :

अध्यक्ष :

- गैर-सरकारी सदस्य :
- | | |
|--|-------------------------|
| (क) श्री शान्ति लाल ए शाह,
गुजरात समाचार, अहमदाबाद। | } आई०ई०एन०एम० के मनोनीत |
| (ख) डा० राम एम० नरनैत्रा,
टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई। | |
| (ग) श्री रती लाल सेठ,
दि जन्मभूमि, बम्बई। | } आई०एन०एन०ए० के मनोनीत |
| (घ) श्री के०एम० देशपाण्डे,
दि मराठाबाड़ा, औरंगाबाद। | |

- (ङ) श्री टी०आर० रामास्वामी, आई०एफ०डब्ल्यू०जे० के मनोनीत
मकल कुरुल, मद्रास।
- (च) श्री शाम राव हर्नूर, एन०यू०जे० (आई) के मनोनीत
पी०टी०आई०, हैदराबाद।
- (छ) श्री प्रेम चन्द वर्मा, ए०आई०एम०एम०एन०ए० के मनोनीत
वि जगत एण्ड एकता सन्देश,
दिल्ली।
- (ज) श्री रामा शर्कर, आई०आई०एम०एम०एन०ए० के
"दि आईडर", कानपुर। मनोनीत।

इनके प्रतिनिधित्व, राज्य सभा के सदस्य प्रो० राम लाल पारिख 13-8-1981 तक अखबारी कागज सलाहकार समिति के सदस्य बने रहेंगे।

सरकारी सदस्य :

- (क) विज्ञान मंत्रालय (प्राथमिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि।
- (ख) उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि।
- (ग) भारत राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि।
- (घ) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के प्रतिनिधि।
- (ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि [संयुक्त सचिव (सूचना)]
- (च) भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार समिति के सचिव भी होंगे।

अध्यक्ष को प्रतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा तथा वह ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जिन्हें वह ठीक समझते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति के समय से दो वर्ष का होगा परन्तु निवृत्त होने वाले सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

समिति की सदस्यता प्रवैतनिक होगी। परन्तु गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय के कार्यालय ऋषन सं० एक० (26)/ई० 4/59, दिनांक 5-9-1960 जैसे कि समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अनुसार यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

समिति साधारणतः एक वर्ष में दो बार बैठेगी।

एस०एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(Office of the Registrar of Newspapers)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th December, 1979

RE/NP.—In pursuance of the recommendation of the Estimates Committee, the Government of India set up on July 29, 1964, a Committee to advise Government on question of Policy regarding the import and allocation of newsprint and printing machinery for newspapers and other cognate matters. The Newsprint Advisory Committee has now been re-constituted as under:—

CHAIRMAN : Minister for Information and Broadcasting.

NON-OFFICIAL MEMBERS :

- | | | |
|--|---|------------------|
| (a) Shri Shanti Lal A Shah,
Gujarat Samachar,
Ahmedabad. | } | Nominees of IENS |
| (b) Dr. Ram S. Tarneja,
Times of India,
Bombay. | | |
| (c) Shri Ratilal Sheth,
The Janmabhoomi,
Bombay. | } | Nominees of ILNA |
| (d) Shri K.S. Deshpande,
The Marathwada,
Aurangabad. | | |
| (e) Shri T.R. Ramaswami,
Makkal Kural,
Madras. | | Nominee of IFWJ |

- | | |
|---|--------------------|
| (f) Shri Sham Rao Harnoor,
PTI, Hyderabad. | Nominee of NUJ (I) |
| (g) Shri Prem Chand Verma,
The Jagat and Ekta Sandesh,
Delhi. | Nominee of AISMNA |
| (h) Shri Rama Shankar, Editor,
"THE EDITOR",
Kanpur. | Nominee of AISMNF |

In addition, Prof. Ram Lal Parikh, Member of Rajya Sabha will continue to be a member of the Newsprint Advisory Committee upto 13-8-1981.

OFFICIAL MEMBERS:

- Representative of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
- Representative of Ministry of Industry.
- Representative of the State Trading Corporation of India.
- Representative of the Chief Controller of Imports and Exports.
- Representative of the Ministry of Information and Broadcasting [Joint Secretary (Information)].
- Registrar of Newspapers for India, who will also be the Secretary of the Committee.

The Chairman will have the powers to co-opt additional members and to invite such officials and non-officials to attend the meetings as he considers appropriate.

The term of membership of non-official members will be two years from the date of appointment but the retiring members will be eligible for re-appointment.

Membership of the Committee will be honorary, but non-official members will be entitled to travelling allowance and daily allowance in accordance with the Ministry of Finance Office Memorandum No. F6(26)/E. IV/59, dated 5-9-1960, as amended from time to time.

The Committee will ordinarily meet twice a year.

S.L. KAPUR, Joint Secy.